



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 फाल्गुन 1939 (श0)
(सं0 पटना 244) पटना, शुक्रवार 16 मार्च 2018

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश
15 मार्च 2018

सं० 3/एम0-54/2015/3575-सा0प्र0—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 निर्गत है। उक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही, संकल्प के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है।

2.संकल्प की कंडिका-3(1) के प्रावधान के तहत विभिन्न विभागों/कार्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सम्युक्त विचारोपरांत निम्नांकित पदों को संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 की अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है :-

क्र० सं०	विभाग का नाम	संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.15 अनुसूची में सम्मिलित किये जाने वाले पद।
(क)	आयुक्त कार्यालय, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा	(i) सांख्यिकी विशेषज्ञ
(ख)	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	(i) अनुदेशक, (ii) तकनीकी सहायक, (iii) लिपिक
(ग)	गृह विभाग (आरक्षी शाखा)	(i) आशु अवर निरीक्षक
(घ)	परिवहन विभाग	(i) क्षेत्रीय कार्यालय के लिपिक

3. उपरोक्त पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं इन पदों पर सेवा लेने के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 244-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>